

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

शक्ति उत्थान आश्रम, लखीसराय

(एन.सी.ई.आर.टी पर आधारित)

कक्षा – पंचम्

तिथि – 19/05/2021

विषय-संस्कृत

सुमिता कुमारी

सुप्रभात बच्चों,

संस्कृत में आप सब पाठ-3 'अकारांत-पुल्लिंग-शब्द'
के बारे में अध्ययन करेंगे।

संस्कृत

तृतीयः पाठः

अकारांत-पुल्लिंग-शब्दाः

* हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं- स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग।

लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं- पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग।

लिंग

पुल्लिंग

स्त्रीलिंग

नपुंसकलिंग



बालः

बाला

पुष्पम्

वचन

हिंदी भाषा में हमने जो वचन पढ़े हैं- एकवचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग की तरह वचन भी तीन होते हैं एकवचन ,द्विवचन एवं बहुवचन।

वचन

एकवचन

द्विवचन

बहुवचन



बालकः

बालकौ

बालकाः

(एक लड़का)

(दो लड़कें)।

(बहुत-से लड़कें)

इस पाठ में हम 'अकारांत' पुल्लिङ्ग शब्दों के तीन वचनों के विषय में पढ़ेंगे।

* अकारांत- जिनका अंतिम वर्ण 'अ' हो।

*पुल्लिङ्ग- जिनसे पुरुष जाति का बोध हो।

*शब्द-जिनका अर्थ हो।

अकारांत पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप अलग-अलग वचनों में निम्न प्रकार से प्रयोग होते हैं-

एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
शब्द+(ः)	शब्द+(ौ)	शब्द+ाः
बालकः	बालकौ	बालकाः

अभ्यास

1. शुद्धं विकल्पो चित्रशाला रिक्तस्थानानि पूरयत-

(शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए।)

(i) जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है,
उन्हें..... शब्द कहते हैं।

(क) नपुंसकलिङ्ग (ख) स्त्रीलिङ्ग (ग)पुल्लिङ्ग

(ii)संस्कृत भाषा में..... वचन होते हैं।

(क) एक (ख) दो (ग)तीन

(iii) बहुवचन का प्रयोग..... के लिए किया जाता है।

(क) दो से ज्यादा (ख) केवल तीन (ग)दो

(iv)'मेघ' का द्विवचन रूप..... हैं।

(क) मेघः (ख) मेघौ (ग)मेघाः

2.निम्नशब्दान् प्रदत्तपदानां कोष्ठकात् उचितम्

अर्थं चित्वा लिखत-

(दिए गए शब्दों का कोष्ठक से उचित अर्थ

चुनकर लिखिए)

(i) निर्झरः (एक झरना,दो झरना)

(ii) छात्रौ (दो छात्र, अनेक छात्र)

(iii)पादपाः (एक पौधा अनेक पौधे)

(iv)मृगौ (एक हिरण, दो हिरण)